



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1005 राँची, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

2 दिसम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-20/2017-27132 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध सरकारी आवास के चाहार दिवारी के अंदर स्थित शीशम के पेड़ को बिना औपचारिकता पूर्ण किये कटवाकर निजी उपायोग किये जाने तथा कर्णाकित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग के सरकारी आवास में रहते हुए अवैध रूप से मकान किराया भत्ता राशि की निकासी करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-52/स्था०, दिनांक 02.02.2017 द्वारा गठित

प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, गोड्डा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/160	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
